### PARMESHWARI SILK MILLS LIMITED

Regd. Off: Village Bajra Rahon Road, Ludhiana-141007, Ph no.: +91-161-2691873, Email id: psmltex@gmail.com, Website: <a href="www.parmeshwarisilkmills.com">www.parmeshwarisilkmills.com</a> CIN: L17116PB1993PLC012917

Date: 15th November, 2024

Head- Listing Compliance
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

The Head Listing Compliance

Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range, Dalhousie,

Murgighata, BBD Bagh,

Kolkata- 700001

Security code: 540467 Scrip Code: 026501

Sub: <u>Disclosure under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)</u>
Regulations, 2015-Newspaper Advertisement

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find attached herewith Newspaper Advertisement w.r.t. Un-audited Standalone Financial Results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September 2024 approved at the Board meeting of the Company which was held on Wednesday, 13<sup>th</sup> Day of November, 2024 (commenced at 12:00 P.M. and concluded at 06:35 P.M.), published in leading English Newspaper (Business Standard) and in Regional Language (Hindi) Newspaper (Business Standard) editions on 15<sup>th</sup> November, 2024.

Kindly take the above information on your records.

Thanking you, For Parmeshwari Silk Mills Limited

Shreya Dave Company Secretary

Place:Ludhiana

### PARMESHWARI SILK MILLS LIMITED Regd. Off: Village BajraRahon Road, Ludhiana-141007, Ph no.: +91-161-2691873, Email id: psmltex@gmail.com, Website: www.parmeshwarisilkmills.com

ČIN	: L17116PE	31993PLC0	2917			
Extract of the Consolidated Un-audited Final (Regulation 47(1)						er 30, 2024 t. in lakh)
Particulars	Qı	uarter End	ed	Half Yea	r Ended	Year Ended
Particulars		30.06.2024 (Unaudited)				31.03.2024 (Audited)
Revenue from operations	4960.59	5695.62	4285.89	0656.21	9387.73	20338.53
Other Income	2.91	4.31	7.09	7.22	13.64	51.00
Total Income	4963.50	5699.93	4292.98	0663.43	9401.37	20389.53
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	277.81	246.19	182.03	524.00	385.89	840.80
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	268.08	246.19	171.80	514.27	375.66	833.44
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	205.87	179.46	136.35	385.33	288.38	603.44
Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the \ period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	205.87	179.46	136.35	385.33	288.38	603.44
Equity Share Capital	300.11	300.11	300.11	300.11	300.11	300.11
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)-						
1. Basic	6.86	5.98	4.54	12.84	9.61	20.11
2. Diluted	6.86	5.98	4.54	12.84	9.61	20.11

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Standalone Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange www.bseindia.com and on the website of the Compan at www.parmeshwarisilkmills.com

> For Parmeshwari Silk Mills Limited (Jatinder Pal Singh)

Whole Time Director

Date: 13.11.2024 Place: Ludhiana

	act of Statement of standalone Unaudited financial results for the quarter and half yea		acs, unless other	erwise state
Sr. No.	Particulars	Quarter Ending 30.09.2024	Year to Date 01.04.2024 to 30.09.2024	Quarter Ending 30.09.202
		Unaudited	Unaudited	Unaudite
1.	Total Income From Operations	8161.61	12814.76	7700.57
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	313.44	464.99	209.88
3.	Net Profit / (Loss) for the Period (Before Tax and after Exceptional and/or Extraordinary Items)	313.44	464.99	209.88
4.	Net Profit / (Loss) for the period (After Tax and Exceptional and/or Extraordinary Items)	246.10	367.34	180.5
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)	246.10	367.34	180.5
6.	Equity Share Capital	1551.22	1551.22	1551.2
7.	Other Equity	5734.52	5734.52	5137.00
8.	Earnings per share (face value of Rs. 10/- each)			
	1. Basic	1.59	2.37	1.1
	2. Diluted	1.59	2.37	1.1

**ACTIVE CLOTHING CO. LIMITED** 

as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) has bee completed by the Statutory Auditors (2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available of the websites of the Stock Exchange and the listed entity. <u>www.bseindia.com</u> www.activesourcing.org. For Active Clothing Co.Limited Place: Mohali (Rajesh Kumar Mehra), Managing Director | DIN: 00026176 Date: 14.11.2024

# CAN FIN HOMES LTD

CAN FIN HOMES LTD. Showroom No.4, First Floor, Prem Nagar Old Delhi Road, Ambala, Harayana-13400 Tel No: 0171-2550560, Mob.: 7625079214 Email ID: ambala@o anfinhomes.com, CIN: L85110KA198PLC008699

POSSESSION NOTICE [Rule 8(1)][For Immovable Property]

The undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of the powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 03/09/2024 calling upon the porrowers Mr. Heera Lal S/o Ramesh Chand and Mrs. Poonam Kharwar w/o Heera Lal to repay the amount mentioned in the notice being Rs.22,74,241/- (Twenty Two Lakh Seventy Four Thousand Two Hundred Forty One Only) with further interest at contractual rates, till date of realization within 60 days from the date of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowe

and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 (of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) on this the 14th day of Nov. of the year 2024.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act. in respect of time available, to redeem the secured assets.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Can Fin Homes Ltd for an amount of Rs. 22,74,241/- (Twenty Two Lakh Seventy Four Thousand Two Hundred Forty One Only) and interest thereon.

Description of immovable property Plot bearing property Id no. 242C566U56 part 70 Sq Yd Situated at Shivdayal Puri Colony, Shivpuri-B, Sasoli Yamunanagar Tehsil Jagadhri, Distt Yamunanagar 135001 Boundaries: East: 42 Feet Bhuja and other owner, West: 42 Feet Bhuja and balance part of Rekha Sharma, North: 15 Feet Bhuja and Gali, South: 15 Feet Bhuja and Plot

Date: 14.11.2024 Authorised Officer Place: Ambala **Can Fin Homes Ltd** 

## Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai – 400069

Amritsar Branch: Khasra No. 395-396, Burj Punjab, 6th Floor, Plot No. S.C.O- 9, Distt. Shopping Complex, Ranjeet Avenue, Amritsar - 143001 (Punjab)

Bathinda Branch: No. 96 Hr, 1St Floor, Monga Complex, Hajji Ratan Chowk, Guru Kanshi Marg, Bhatinda- 151001

Hisar Branch: Shop No. 86, 2nd Floor, Commercial Urban Estate - II, Delhi Road, Hisar - 125001 (Haryana) Jalandhar Branch : SCO 5 - 6, 1st Floor, Adjacent to Axis Mutual Fund, Puda Complex, Court Road, Opposite D.C. Office

Jalandhar - 144001 (Puniab)

Karnal Branch: SCO 334, 1st Floor, Mughal Canal, Karnal - 132001, (Haryana) Ludhiana Branch : Online's Greenwood Plaza, 2nd Floor, 387, Miller Ganj, Gill Road, Ludhiana - 141001 (Punjab)

Ludhiana-Chandigarh Road: 2nd Floor, Fortune Tower, SCO No. 34C, Phase -3, Urban Estate, Dhandari Kalan. Ludhiana 141001, Puniab

Patiala Branch: B-17/423, 2nd Floor, Sethi Complex, Opp. Polo Ground, Modi College Chowk, Lower Mall, Patiala 147001 (Puniab)

#### **DEMAND NOTICE**

UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH RULE 3 (1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

The undersigned is the Authorised Officer of **Aadhar Housing Finance Ltd. (AHFL)** under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s)to pay to AHFL, within **60 days** from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest as detailed in the said Demand Notice(s), from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following assets

S.	e been mortgaged to AHFL by the said Borrower(s) r  Name of the Borrower /	Demand Notice	Description of secured assets
No.	Co-Borrower & Guarantor	Date & Amount	(immovable property)
1	(Loan Code No. 0990000413 / Amritsar Branch) Late. Manita Mehra (Represented through Legal Heir)(Borrower) Sandeep Kumar Sunny (Guarantor)	09-11-2024 ₹ 1,85,581/-	All that part & parcel of property bearing, KH No. 471 472 473 47475 76 77 M Plot No. 41 Near Ram Nagar Colony Avenue Guru Nanak Pura Chowk abadi Dhapai Teh Distt, Amritsar, Punjab, 143001
2	(Loan Code No. 0990000841 / Amritsar Branch) Raman Kumar (Borrower) Nisha Rani (Co-Borrower) Sanjeev Arora (Guarantor)	09-11-2024 ₹ 13,75,752/-	All that part & parcel of property bearing, KH No. 1052 MIN Abadi Krishna Nagar Plot No.2 vakia Rakba Wadali Guru Urban Abadi Krishna Nagar inside Old Gali Shambhu Nath Wali, Amritsar, Punjab, 143105
3	(Loan Code No. 1070000354 / Bathinda Branch) Nirmal Singh (Borrower) Sewak Singh (Co-Borrower) Dharminder Singh (Guarantor)	09-11-2024 ₹ 3,52,992/-	All that part & parcel of property bearing, 47 17 80 18 MIN 5 14 Vakia Rakba Thuthia Bali Bathind Road Near Mansa Kanchia Mansa, Punjab, 151505
4	(Loan Code No. 1071000209 / Bathinda Branch) Kewal Kumar (Borrower) Veero Devi (Co-Borrower)	09-11-2024 ₹ 13,98,499/-	All that part & parcel of property bearing, GF, FF Ho at KH No.48//17/2(2-15), 18(5-4),19/4min (2-7), 19/6 (1-12), 22/1(0-2), 22st No.1/6 Krishna Colony Bathinda Punjab 151001
5	(Loan Code No. 0950000100 / Hisar Branch) Manoj Kumar (Borrower) Raj Bala (Co-Borrower) Ram Swarup (Guarantor)	<u>09-11-2024</u> ₹ 8,06,841/-	All that part & parcel of property bearing, Khasra No 106 6 7 8 Kunja Colony Village Arya Nagar Tehsil Dist Hissar, Haryana - 125001
6	(Loan Code No. 0950000156 / Hisar Branch) Neelam Devi (Borrower) Kapil (Co-Borrower)	09-11-2024 ₹ 7,01,098/-	All that part & parcel of property bearing, Ward No.1 Khasra No. 63 3 5 1 Ward No.1 Khasra No. 63 3 5 13 829 Min 1337 Khewat Khatta Near PWD Rest House, Jind, Haryana-126116
7	(Loan Code No. 09800000392 & 09800000399 /Jalandhar Branch) Madan Lal (Borrower) Gagandeep Kumar (Co-Borrower) Sandeep Kumar (Guarantor)	09-11-2024 ₹2,34,046/- & ₹ 8,37,578/-	All that part & parcel of property bearing, Kh No. 3593 632 2 3607 634 3609 H No. 182 B New Geeta Colony Kala Singha Road Near Chintpurni Mandir Basti Sheikh, Jalandhar, Punjab, 144001
8	(Loan Code No. 30700000032 / Karnal Branch) Rajeev Singh (Borrower) Sapna (Co-Borrower) Deepak Kumar (Guarantor)	09-11-2024 ₹ 10,93,977/-	All that part & parcel of property bearing, Killa No. 297 20 7 12 Sunder Patti Bhunto Wala Mohalla Nr Gonder Canal Gugamari Anganwari Vill Gonder Teh Nissing, Karnal, Haryana, 132024
9	(Loan Code No. 15810000145 / Khanna Branch) Gurdeep Kaur (Borrower) Arshpreet Singh & Amarjit Kaur (Co-Borrowers)	09-11-2024 ₹ 10,33,991/-	All that part & parcel of property bearing, GF House At Khasra No. 228(6-5) Sua Road New Shanti Nagar, Jassran Jasran (2) (Part) Fatehgarh Sahib Punjab 147301
10	(Loan Code No. 1000000064/ Ludhiana Branch) Harsh Chadha (Borrower) Urmila Chadha (Co-Borrower) Deepak Lal (Guarantor)	09-11-2024 ₹ 7,10,375/-	All that part & parcel of property bearing, 7 19 20 1 21 2 22 18 23 Plot No. 171 Basant Vihar bachan Singh Nagar Village Baloke, Ludhiana, Punjab, 141001
11	(Loan Code No. 10010000481 / Ludhiana Branch) Ajay Singh (Borrower) Suman (Co-Borrower)	09-11-2024 ₹ 14,94,026/-	All that part & parcel of property bearing, GF/FF House At Khasra No.37//16-17/1 Street No. 2 Gopal Nagar, Haibowal Ludhiana Ludhiana Punjab 141008
12	(Loan Code No. 38710000314 / Ludhiana-Chandigarh Road Branch) Minhajul Sarakar (Borrower) Md Manzarul Haque (Co-Borrower)	09-11-2024 ₹ 7,02,917/-	All that part & parcel of property bearing, Ground Floor H.No. is K.No. 16//4/1/2-4/2/-5/1-5/2-6-7 etc. Meharban Colony Wakia Meharban Ludhiana Punjab 141007
13	(Loan Code No. 10200000047 / Patiala Branch) Late Mahavir Singh (Represented through Legal Heir) (Borrower), Kiran Bala (Co-Borrower) Jashir Singh & Gordhan Dass (Guarantor)	09-11-2024 ₹ 5,45,776/-	All that part & parcel of property bearing, House No. 24 13 House No. 24 13 street No. 05 Ward No. 21 Amargarh Colony Kaithal, Kurukshetra, Haryana, 132027

lf the said Borrowers shall fail to make payment to AHFL as aforesaid, AHFL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of AHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act o

Jasbir Singh & Gordhan Dass (Guarantor)

Rules made there under, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. Sd/- Authorised Officer Place : Punjab & Haryana

Date: 15-11-2024 For : Aadhar Housing Finance Limited



### BRIGADE ENTERPRISES LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L85110KA1995PLC019126 Regd. Office: 29th & 30th Floor, World Trade Center, Brigade Gateway Campus 26/1, Dr. Rajkumar Road, Malleswaram-Rajajinagar, Bengaluru 560 055.

Ph: +91-80-4137 9200. Email: enquiry@brigadegroup.com Website: www.brigadegroup.com

### Extract of the Unaudited Consolidated Financial Results for the Second Quarter and Half Year Ended 30th September, 2024

			Quarter Ended	l	Half Yea	Year Ended	
SI. No.	Particulars	30-09-2024 (Unaudited)	30-06-2024 (Unaudited)	30-09-2023 (Unaudited)	30-09-2024 (Unaudited)	30-09-2023 (Unaudited)	31-03-2024 (Audited)
1.	Total Income from operations	1,13,813	1,11,344	1,40,792	2,25,157	2,09,335	5,06,415
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	16,635	10,844	18,035	27,479	21,039	56,868
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16,635	10,844	18,035	27,479	21,039	56,868
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,508	8,053	11,250	19,561	13,439	40,104
5.	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	11,508	8,053	11,250	19,561	13,439	40,060
6.	Equity Share Capital	24,422	23,114	23,085	24,422	23,085	23,110
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	3,40,985
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (not annualised) (a) Basic: (b) Diluted:	4.94 4.92	3.62 3.61	5.79 5.77	8.40 8.37	7.46 7.43	19.56 19.51

1. Brief of Standalone Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2024 is as follows:

(₹ in Lakhs)

						,
		Quarter Ended		Half Yea	Year Ended	
Particulars	30-09-2024 (Unaudited)	30-06-2024 (Unaudited)	30-09-2023 (Unaudited)	30-09-2024 (Unaudited)	30-09-2023 (Unaudited)	31-03-2024 (Audited)
Revenue from Operations	42,150	53,398	43,826	95,548	75,457	2,02,536
Profit / (Loss) Before Tax	11,292	8,790	9,701	20,082	14,960	42,929
Profit / (Loss) After Tax	9,053	6,563	7,202	15,616	11,060	31,819

- 2. The above consolidated financial results of Brigade Enterprises Limited ('the Company'), its subsidiaries and associate company (together referred to as "the Group") has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 13th November, 2024.
- 3. The above is an extract of the detailed format of quarter ended Financial Results (Standalone and Consolidated) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations, 2015, The full format of Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the websites of the stock exchanges www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.brigadegroup.com.
- During the quarter ended 30th September, 2024 the paid-up equity share capital of the Company has increased from Rs.23,114 lakhs to Rs.24,422 lakhs pursuant to issue of 1,30,43,478 equity shares by the company to qualified institutional buyers through QIP in accordance with the SEBI ICDR Regulations and allotment of 45,131 equity shares on exercise of stock options by employees.
- 5. Brigade Hotel Ventures Limited ('BHVL'), a wholly owned subsidiary of the Company has filed draft red herring prospectus dated October 30, 2024 with Securities & Exchange Board of India for an initial public offering of equity shares of face value of Rs.10 each ("Equity shares") comprising of fresh issue of Equity shares aggregating upto Rs.90,000 Lakhs. The issue is subject to receipt of regulatory approvals, market conditions and other considerations.
- 6. During the quarter ended September 2024, Brigade Tetrarch Private Limited (BTPL), a wholly owned subsidiary of the company, has incorporated "Brigade HRC LLP" a limited liability partnership (LLP) as a subsidiary to undertake development of real estate projects.

Place: Bengaluru, India Date: 13th November, 2024 For Brigade Enterprises Limited Pavitra Shankar **Managing Director** 

with interest @ 16 p.a. till the realization

		GRIHUM HOUSING FINANCE LI	MILLE	D	APPENDIX IV (See rule 8(1))
	GRIHUM	(FORMERLY KNOWN AS POONAWALLA HOUSING FINANCE LTD	)		POSSESSION NOTICE
	Aprea Sher, April Polishers.	Registered Office: 602, 6th Floor, Zero One IT Park, Sr. No. 79/1, Ghorpadi, Mundhwa			(For Immovable Property)
		ned being the Authorised Officer of <b>Grihum Housing Finance Limited (formerly known as Poonawalla Housing</b>			
		Housing Finance Limited with effect from 17 Nov 2023 (Previously known as Magma Housing Finance Li			
		nited Company) herein after referred as Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the Above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the Above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the Above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the Above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the Above Corporate/ Register office under the Secured Creditor of the Above Corporate/ Register of the Above Corporate/ Reg			
		2002 (hereinafter referred as the "said Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) of the sai			
		failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned			
		n him/ her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules of the Security Interest Enforcement			
		cular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property			
th	ereon. The borrower	's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the	e secured assets	<ol><li>Details of Pro</li></ol>	perty taken in possession are herein below.
S	Name of	Description of Property	Possession	Date of statu	Amount in Demand Notice (Rs.)
N	. Borrowers	Description of Property	taken Date	Demand No	tice Amount in Demand Notice (Rs.)
	CATIMINIDED	All That Piece And Parcel Of Property, Area Measuring 0 Bigha 11 Biswa, Bearing Khewat/Khatauni No.			Loan No. HF0140H21100039
	SATWINDER	All That Piece And Parcel Of Property, Area Measuring 0 Bigha 11 Biswa, Bearing Khewat/Khatauni No. 584/948, Khasra No. 4453/2380/2-18, 4455/2381/1-4, 4457/2382/1-19, 4459/2383/3-8, 11/189 Share Out			Rs. 1074413.25/- (Rupees Ten
	SINGH VIRK,	584/948, Khasra No. 4453/2380/2-18, 4455/2381/1-4, 4457/2382/1-19, 4459/2383/3-8, 11/189 Share Out Of Total Property Measuring 9 Bigha 9 Biswa I.E. O Bigha 11 Biswa Situated Within The Revenue Estate Of	11/11/2024	26/08/20	Rs. 1074413.25/- (Rupees Ten Lakh Seventy Four Thousand
1	SINGH VIRK, ARSHDEEP	584/948, Khasra No. 4453/2380/2-18, 4455/2381/1-4, 4457/2382/1-19, 4459/2383/3-8, 11/189 Share Out Of Total Property Measuring 9 Bigha 9 Biswa I.E. O Bigha 11 Biswa Situated Within The Revenue Estate Of Tibba, Sub Tehsil Sherpur, Tehsil Dhuri, District Sangrur In The Name Of Lakhwinder Kaur Virk W/O	11/11/2024	26/08/20	Rs. 1074413.25/- (Rupees Ten Lakh Seventy Four Thousand Four Hundred Thirteen and
1	SINGH VIRK, ARSHDEEP SINGH VIRK,	584/948, Khasra No. 4453/2380/2-18, 4455/2381/1-4, 4457/2382/1-19, 4459/2383/3-8, 11/189 Share Out Of Total Property Measuring 9 Bigha 9 Biswa I.E. O Bigha 11 Biswa Situated Within The Revenue Estate Of Tibba, Sub Tehsil Sherpur, Tehsil Dhuri, District Sangrur In The Name Of Lakhwinder Kaur Virk W/O Satwinder Singh Virk Vide Transfer Deed No. 2019-20/129/1/799 Dated 17.09.2019 (Hereinafter Called The	11/11/2024	26/08/20	Rs. 1074413.25/- (Rupees Ten Lakh Seventy Four Thousand Four Hundred Thirteen and Twenty Five Paisas Only) payable
1	SINGH VIRK, ARSHDEEP SINGH VIRK, LAKHWINDER	584/948, Khasra No. 4453/2380/2-18, 4455/2381/1-4, 4457/2382/1-19, 4459/2383/3-8, 11/189 Share Out Of Total Property Measuring 9 Bigha 9 Biswa I.E. O Bigha 11 Biswa Situated Within The Revenue Estate Of Tibba, Sub Tehsil Sherpur, Tehsil Dhuri, District Sangrur In The Name Of Lakhwinder Kaur Virk W/O Satwinder Singh Virk Vide Transfer Deed No. 2019-20/129/1/799 Dated 17.09.2019 (Hereinafter Called The Property In Question). Boundries Are As Under: East: Street, Side 49'6" West: Owner, Side 49'6", North:	11/11/2024	26/08/20	Rs. 1074413.25/- (Rupees Ten Lakh Seventy Four Thousand Four Hundred Thirteen and Twenty Five Paisas Only) payable as on 26/08/2024 along with inter-
1	SINGH VIRK, ARSHDEEP SINGH VIRK,	584/948, Khasra No. 4453/2380/2-18, 4455/2381/1-4, 4457/2382/1-19, 4459/2383/3-8, 11/189 Share Out Of Total Property Measuring 9 Bigha 9 Biswa I.E. O Bigha 11 Biswa Situated Within The Revenue Estate Of Tibba, Sub Tehsil Sherpur, Tehsil Dhuri, District Sangrur In The Name Of Lakhwinder Kaur Virk WO Satwinder Singh Virk Vide Transfer Deed No. 2019-20/129/1/799 Dated 17.09.2019 (Hereinafter Called The Property In Question). Boundries Are As Under: East: Street, Side 49' 6" West: Owner, Side 49' 6", North: Kulwant Singh S/O Jora Singh, Side 100' 3", South: Hardeep Singh S/O Jora Singh, Side 100' 3"	11/11/2024	26/08/20	Rs. 1074413.25/- (Rupees Ten Lakh Seventy Four Thousand Four Hundred Thirteen and Twenty Five Paisas Only) payable
1	SINGH VIRK, ARSHDEEP SINGH VIRK, LAKHWINDER KAUR VIRK	584/948, Khasra No. 4453/2380/2-18, 4455/2381/1-4, 4457/2382/1-19, 4459/2383/3-8, 11/189 Share Out Of Total Property Measuring 9 Bigha 9 Biswa I.E. O Bigha 11 Biswa Situated Within The Revenue Estate Of Tibba, Sub Tehsil Sherpur, Tehsil Dhuri, District Sangrur In The Name Of Lakhwinder Kaur Virk W/O Satwinder Singh Virk Vide Transfer Deed No. 2019-20/129/1/799 Dated 17.09.2019 (Hereinafter Called The Property In Question). Boundries Are As Under: East: Street, Side 49'6" West: Owner, Side 49'6", North:	11/11/2024		Rs. 1074413.25/- (Rupees Ten Lakh Seventy Four Thousand Four Hundred Thirteen and Twenty Five Paisas Only) payable as on 26/08/2024 along with inter-
1	SINGH VIRK, ARSHDEEP SINGH VIRK, LAKHWINDER	584/948, Khasra No. 4453/2380/2-18, 4455/2381/1-4, 4457/2382/1-19, 4459/2383/3-8, 11/189 Share Out Of Total Property Measuring 9 Bigha 9 Biswa I.E. O Bigha 11 Biswa Situated Within The Revenue Estate Of Tibba, Sub Tehsil Sherpur, Tehsil Dhuri, District Sangrur In The Name Of Lakhwinder Kaur Virk W/O Satwinder Singh Virk Vide Transfer Deed No. 2019-20/129/1/799 Dated 17.09.2019 (Hereinafter Called The Property In Question). Boundries Are As Under: East: Street, Side 49° 6" West: Owner, Side 49° 6", North: Kulwant Singh S/O Jora Singh, Side 100° 3", South: Hardeep Singh S/O Jora Singh, Side 100° 3" All That Pice & Parcel Of Khasra No 44//5/3 3-0 31//21/2 2-12 31//20/4 1-1 31//21/1 5-8 59//17/2 3-5,	11/11/2024		Rs. 1074413.25/- (Rupees Ten Lakh Seventy Four Thousand Four Hundred Thirteen and Twenty Five Paisas Only) payable as on 26/08/2024 along with inter- est @ 17 p.a. till the realization.
2.	SINGH VIRK, ARSHDEEP SINGH VIRK, LAKHWINDER KAUR VIRK	584/948, Khasra No. 4453/2380/2-18, 4455/2381/1-4, Ã457/2382/1-19, 4459/2383/3-8, 11/189 Share Out Of Total Property Measuring 9 Bigha 9 Biswa I.E. O Bigha 11 Biswa Situated Within The Revenue Estate Of Tibba, Sub Tehsil Sherpur, Tehsil Dhuri, District Sangrur In The Name Of Lakhwinder Karu Virk W/O Satwinder Singh Virk Vide Transfer Deed No. 2019-20/129/1/799 Dated 17.09.2019 (Hereinafter Called The Property In Question). Boundries Are As Under: East: Street, Side 49' 6" West: Owner, Side 49' 6", North: Kulwant Singh S/O Jora Singh, Sidel 100' 3" , South: Hardeep Singh S/O Jora Singh, Sidel 100' 3" , South: Hardeep Singh S/O Jora Singh, Sidel 100' 3" All That Pice & Parcel Of Khasra No 44//5/3 3-0 31//21/2 2-12 31//20/4 1-1 31//21/1 5-8 59//17/2 3-5, 44//2727 3-0 Khata Kahata No 1513/2042 To 2046 Wakiya Rakba Village Majitha Tehsil Majitha Distt	11/11/2024	06/06/2024	Rs. 10744/13.25/- (Rupees Ten Lakh Seventy Four Thousand Four Hundred Thirteen and Twenty Five Paisas Only) payable as on 26/08/2024 along with inter- est @ 17 p.a. till the realization.
2.	SINGH VIRK, ARSHDEEP SINGH VIRK, LAKHWINDER KAUR VIRK	584/948, Khasra No. 4453/2380/2-18, 4455/2381/1-4, 4457/2382/1-19, 4459/2383/3-8, 11/189 Share Out Of Total Property Measuring 9 Bigha 9 Biswa I.E. O Bigha 11 Biswa Situated Within The Revenue Estate Of Tibba, Sub Tehsil Sherpur, Tehsil Dhuri, District Sangrur In The Name Of Lakhwinder Kaur Virk W/O Satwinder Singh Virk Vide Transfer Deed No. 2019-20/129/1/799 Dated 17.09.2019 (Hereinafter Called The Property In Question). Boundries Are As Under: East: Street, Side 49° 6" West: Owner, Side 49° 6", North: Kulwant Singh S/O Jora Singh, Side 100° 3", South: Hardeep Singh S/O Jora Singh, Side 100° 3" All That Pice & Parcel Of Khasra No 44//5/3 3-0 31//21/2 2-12 31//20/4 1-1 31//21/1 5-8 59//17/2 3-5,	11/11/2024	06/06/2024	Rs. 1074413.25/- (Rupees Ten Lakh Seventy Four Thousand Four Hundred Thirteen and Twenty Five Paisas Only) payable as on 26/08/2024 along with inter- est @ 17 p.a. till the realization.

Opinion, **Insight Out** 

Opinion, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to **57575** or email order@bsmail.in

**Business Standard** 



# एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) A Navratna CPSE नवरल सीपासर्ह CIN L40101HP1988GOI008409

### नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन

प्रेस सचना / ई-निविदा सं. : पीसीडी-2911 (सिविल) /2024 एसजेवीएन लिमिटेड की ओर से "एनजेएचपीएस टाउनशिप में ड्रेनों, नालों और आरएचपीएस स्पिलवे गेट क्षेत्र के ऊपर डेनेज चैनल का पनर्निर्माण और मरम्मत/रखरखाव'' हेतु घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली (डीसीबी) पर ऑनलाइन बोलियाँ (ई-निविदा) आमंत्रित की जाती हैं।

बोली दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 05.12.2024 (12:00 बजे) है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 06.12.2024 (13:00 बजे) है।

एनआईटी विवरण एवं सभी आगामी संशोधनों/शुद्धिपत्र हेतु कृपया वेबसाइट https://etender.sjvn.co.in, www.sjvn.nic.in एवं www.eprocure.gov.in देखें। उप महाप्रबंधक (प्रा. एवं सं.),

एनजेएचपीएस, एसजेवीएन लि., झाकडी, जिला शिमला, हि.प्र.-172201

### **PICCADILY AGRO INDUSTRIES LIMITED**

CIN: L01115HR1994PLC032244 Register Office: Village Bhadson, Umri Indri Road, Teh. Indri, Dist. Karnal, Bhadson, Haryana – 160017 • E-mail Id: piccadilygroup34@rediffmail.com

### **NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATES**

Notice is hereby given that The following Share Certificates issued by the Company are stated to be lost / misplaced and the registered holders thereof have applied to the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Folio No.	Name of the	Share Cer	tificate No.	Distinct	ive Nos	No. of
FOIIO NO.	Share Holder	From	То	From	То	Shares
		00161347	00161347	051462841	051463840	1000
12932	12932 KIRAN GADHIA	00154672	00154672	026123071	026123570	500
	0/15/11/1	00130261	00130265	022919321	022919820	500
Total						2000

The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the abov share certificates. Any person(s) who has / have any claim(s) with the company in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim at its registered office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the company will proceed with issuance of duplicate share certificates

FOR PICCADILY AGRO INDUSTRIES LIMITED Date: 14.11.2024 COMPANY SECRETARY Place: Chandigarh

#### MOTILAL OSWAL HOME LOANS

### मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएन— U65923MH2013PLC248741 **पंजीकृत कार्यालय :** मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, परेल एसटी डिपो के सम्मुख, प्रमादेवी, मुंबई — 400 025, **सीएस** : 8291889898 वेबसाइट : www.motilaloswalhf.com, **ईमेल** : hfquery@motilaloswal.com

### सार्वजनिक सूचना

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड ("एमओएचएफएल") (पूर्ववर्त्ती "एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड") एतदद्वारा उधारकर्ताओं अर्थात् **जितंद्र कुमार और मधु रानी** (इसके बाव सामृहिक रूप से 'उधारकर्ताओं' के रूप में संदर्भित) को सूचित करते हैं कि, ऋण खाता संख्या LXMOKARNAL222-230622807 के अंतर्गत, अपने निजी सामान / वस्तुओं को उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति "संपत्ति के वह सभी भाग तथा अंश जो **आवासीय भूखंड वार्ड संख्या 1 खेवट /** खतौनी संख्या 399/435 किट्टे 17 रकबा 96के-4एम, 3/1924 में से अंश, पार्ट बकदर उएम त्राओरी तहसील निलोखेड़ी और जिला करनाल हरियाणा 132116" ("प्रतिभूत परिसंपत्ति") उस संपत्ति से 7 दिनों की अवधि के भीतर, हटायें, जिसका भौतिक अधिग्रहण एमओएचएफएल के पास है जिसे सरफॉएसि अधिनियम 2002 के प्रावधानों का अनुपालन हटाया जाना है। उधारकर्ताओं को यह भी सूचित किया जात है कि यदि उधारकर्ता 7 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति से अपने व्यक्तिगत सामान / वस्तुओं को हटाने में विफल रहते हैं, तो एमओएचएफएल उक्त व्यक्तिगत सामान / वस्तुओं के कानून के अनुसार और साथ ही सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके या ऐसी परिसंपत्तियों को खरीदने रं रुचि रखने वाले पक्षों से कोटेशन प्राप्त करके निस्तारित करने का हकदार होगा।

कृते मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड स्थान : हरियाणा दिनाँक : 15/11/2024 अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। प्राधिकृत हस्ताक्षरकत

### PICCADILY AGRO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L01115HR1994PLC032244
Register Office: Village Bhadson, Umri Indri Road, Teh. Indri, Dist. Karnal,

#### Bhadson, Haryana – 160017 • E-mail Id: piccadilygroup34@rediffmail.com **NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATES**

Notice is hereby given that The following Share Certificates issued by the Company are stated to be lost / misplaced and the registered holders thereof have applied to the Company for issue of Duplicate Share Certificates

Folio No.	Name of the	Share Cert	tificate No.	Distinct	ive Nos	No. of
FOIIO NO.	Share Holder	From	То	From	То	Shares
		00130266	00130270	022919821	022920320	500
17830	NIMA HIRPARA	00156151	00156151	026585671	026586170	500
	Till d 7 d V V	00162812	00162812	052342641	052343640	1000
Total						2000

The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has / have any claim(s) with the company in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim at its registered office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the company will proceed with issuance of duplicate

FOR PICCADILY AGRO INDUSTRIES LIMITED Date: 14 11 2024 COMPANY SECRETARY Place: Chandigarh

दिनांक : 15.11.2024



सूचना अंतरिम लामांश की घोषणा और रिकॉर्ड तिथि

कंपनी के निदेशक मंडल ने गुरूवार, 14 नवम्बर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के प्रत्येक ₹5.00 के इक्विटी शेयर पर ₹2.50 का अंतरिम लामांश घोषित किया। अंतरिम लामांश का भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर यानी 13 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले कंपनी के इंक्विटी शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 तक शेयरों के लाभकारी मालिकों के रूप में दिखाई देते हैं, जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित रिकॉर्ड तिथि है।

उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट (www.surya.co.in) और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 15 नवम्बर 2024

बोर्ड की आज्ञानुसार सूर्या रोशनी लिमिटेड के लिए हस्ता / – बी बी सिंघल सीएफओ और कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या ACS-10781

### परमेश्वरी सिल्क मिल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः गाँव बाजरा राहोन रोड, जुलियाना—141007, फोन नं: +91—161—2691873 ईमेल आईडी: psmltex@gmail.com, वेबसाइट: www.parmeshwarisilkmills.com

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और (सेबी(एलओडीआर)	र छमाही के विनियमाव	लिए समेवि ली, 2015 व	रुत अलेखाप ठा विनियम	गरीक्षित विर्त्त 47(1)(बी)	ोय परिणामं	ाँ का सार (राशि लाखों में)
विवरण		तिमाही समाप	त	छमाही	छमाही समाप्त वर्ष समाप्त	
11111	30.09.2024 (अलेखापरीवित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्रित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2024 (अलेखापरीवित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
प्रचालनों से राजस्व	4960.59	5695.62	4285.89	0656.21	9387.73	0338.53
अन्य आय	2.91	4.31	7.09	7.22	13.64	51.00
कुल आय	4963.50	5699.93	4292.98	0663.43	9401.37	20389.53
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पूर्व)	277.81	246.19	182.03	524.00	385.89	840.80
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	268.08	246.19	171.80	514.27	375.66	833.44
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	205.87	179.46	136.35	385.33	288.38	603.44
अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात)						
शामिल]	205.87	179.46	136.35	385.33	288.38	603.44
इक्विटी शेयर पूंजी	300.11	300.11	300.11	300.11	300.11	300.11
आरक्षित (पुनर्मूर्त्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10 / — प्रत्येक के) (चालू व बंद परिचालनों के लिए) —						
1. मूल	6.86	5.98	4.54	12.84	9.61	20.11
2. तरल	6.86	5.98	4.54	12.84	9.61	20.11

ऊपर सेबी (सचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली. २०१५ के नियम ३३ के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए तिमाही और छमाही एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही और छमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटः <u>www.bseindia.com</u> और कंपनी की वेबसाइट www.parmeshwarisilkmills.com पर भी उपलब्ध है।

हिते परमेश्वरी सिल्क मिल्स लिमिटेड (जतिन्दर पाल सिंह) पूर्णकालिक निदेशक

डीआईएनः 01661864

37

दिनांकः 13.11.2024

स्थानः लुघियाना

# प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालयः** 15 किमी स्टोन, दिल्ली रोड, हिसार -125044 (हरियाणा **कारपोरेट कार्यालयः** श्रीवन, बिजवासन, नई दिल्ली—110061

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

				( cuen )
विवरण	तिमाही समाप्त (अलेखापरीक्षित)	छमाही समाप्त (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त (अलेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त (लेखापरीक्षित)
	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
प्रचालनों से आय	107,690	224,376	88,898	367,777
अवधि के लिए लाभ (कर और विशिष्ट मदों से पूर्व)	9,039	18,088	8,943	34,617
कर पूर्व अवधि के लिए लाभ (विशिष्ट मदों के पश्चात)	9,039	18,088	8,943	34,617
कर पश्चात अवधि के लिए लाभ (विशिष्ट मदों के पश्चात)	9,039	18,088	8,943	34,817
अवधि के लिए लाभ – कुल समग्र आय (कर पश्चात)	8,904	17,818	8,928	34,327
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	17,908	17,908	17,908	17,908
अन्य इक्विटी (पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाये अनुसार)	-	-	-	284,467
प्रति शेयर अर्जन बेसिक (₹) (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर) डायल्यूटेड(₹)	5.05 5.05	10.10 10.10	5.00 5.00	19.44 19.44
	प्रचालनों से आय अवधि के लिए लाम (कर और विशिष्ट मदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि के लिए लाम (विशिष्ट मदों के पश्चात) कर पश्चात अवधि के लिए लाम (विशिष्ट मदों के पश्चात) अवधि के लिए लाम — कुल समग्र आय (कर पश्चात) प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ११० प्रति शेयर) अन्य इक्विटी (पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दशाये अनुसार) प्रति शेयर अर्जन बेसिक (१)	प्रमाण (सलेखार्गिक्षेत)  प्रचालनों से आय  अविध के लिए लाभ (कर और विशिष्ट मदों से पूर्व)  कर पूर्व अविध के लिए लाम (विशिष्ट मदों के पश्चात)  कर पश्चात अविध के लिए लाम (विशिष्ट मदों के पश्चात)  कर पश्चात अविध के लिए लाम (विशिष्ट मदों के पश्चात)  अविध के लिए लाम — कुल समग्र आय (कर पश्चात)  प्रदत्त इविचटी शेयर पूंजी (अकित मूल्य १९० प्रति शेयर)  अन्य इक्विटी (पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दशीय अनुसार)  प्रति शेयर अर्जन  बेसिक (१)  5.05	सिमाप्त (अलेखापरिक्रित) (अलेखापरिक्रित) (अलेखापरिक्रित) (अलेखापरिक्रित) (अलेखापरिक्रित) (अलेखापरिक्रित) (अ.0.9.2024)  प्रचालनों से आय 107,690 224,376  अवधि के लिए लाभ (कर और विशिष्ट मदों से पूर्व)  कर पूर्व अवधि के लिए लाभ (विशिष्ट मदों के पश्चात)  कर पश्चात अवधि के लिए लाभ (विशिष्ट मदों के पश्चात)  अवधि के लिए लाभ — कुल समग्र आय (क्र पश्चात)  अवधि के लिए लाभ — कुल समग्र आय (क्र पश्चात)  प्रदत्त इिकटी शेयर पूंजी (अकित मूल्य ११० प्रदेश के लेखापरिक्रित तुलनपत्र में दशाय अनुसार)  अन्य इिकटी (पूर्व वर्ष के लेखापरिक्रित तुलनपत्र में दशाय अर्जन बेसिक (१) 5.05 10.10	समाप्त (अलेखापरिक्षित)   समाप्त (अलेखापरिक्षित)   समाप्त (अलेखापरिक्षित)   अलेखापरिक्षित)   अलेखापरिक्षित)   अलेखापरिक्षित)   अलेखापरिक्षित)   अलेखापरिक्षित)   अलेखापरिक्षित)   अलेखापरिक्षित)   अलेखापरिक्षित   अलेखापरिक्षित   अलेखापरिक्षित   अलेखापरिक्षत   अ

1. 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 14 नवंबर, 2024 को आयोजित उनकी बैठकों में अनुमोदित किए गये तथा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सीमित समीक्षा की है।

ऊपर सेबी (एलओडीआर) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए तिमाही और छमाही वित्तीय रूप का एक सार है। समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों एक्सचेंज की वैबसाइटों www.bseindia.com (BSE), www.nseindia.com (NSE) और केंपनी की वेबसाइट

जहाँ कही भी आवश्यक हुआ पूर्व अवधियों के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

🔝 Aadhar

बोर्ड के आदेशानुसार स्थान : नई दिल्ली सीआईएनः L27109HR1980PLC010724 विक्रम अग्रवाल प्रबंध निदेशक दिनांकः 14 नवंबर 2024 ई-मेलः investorshelpline@prakash.com

V

## राणा शुगर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एससीओ 49-50, सेक्टर 8-सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160009 फोन नं: (0172) 2540007, 2549217, 2541904, 2779565, ईमेल: info@ranagroup.com वेबसाइटः www.ranasugars.com

		L15322C					(रु. लाखों में		
30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार									
	विवरण		3 माह समाप	त	6 माह	समाप्त	वर्ष समाप्त		
		30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित		
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	38,556.80	46,203.92	34,013.27	84,760.72	84,007.60	159,262.5		
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और विशिष्ट मदों से पूर्व)	(2,252.35)	290.67	(1,307.47)	(1,961.67)	775.75	3,697.6		
3.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	(2,252.35)	290.67	(1,307.47)	(1,961.67)	775.75	3,697.6		
4.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(1,478.05)	189.90	(1,459.75)	(1,288.15)	76.78	2,796.7		
5.	(विशिष्ट मदों के बाद) अवधि के लिए कुल समग्र आय अवधि के लिए लाम /(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) सम्मिलित)।	(1,478.05)	189.90	(1,459.75)	(1,288.15)	76.78	2,805.9		
6. 7.	(कर परवात) सान्तालत)] इक्विटी शेयर पूंजी अन्य इक्विटी	15,353.95	15,353.95	15,353.95	15,353.95 —	15,353.95 —	15,353.9 38,692.		
8.	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/— प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं) विशिष्ट मदों से पूर्व								
	– बेसिक	(0.96)	0.12	(0.95)	(0.84)	0.05	1.8		
	– डायल्यूटेड	(0.96)	0.12	(0.95)	(0.84)	0.05	1.8		
9.	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10 /— प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं) विशिष्ट मदों के बाद				, ,				
	— बेसिक	(0.96)	0.12	(0.95)	(0.84)	0.05	1.		
	– डायल्यूटेड	(0.96)	0.12	(0.95)	(0.84)	0.05	1.8		

नोटः ऊपर सेबी (सूचीबृद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गये तिमाही / छमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही / छमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.ranasugars.com पर उपलब्ध है।

> हिते राणा शुगर्स लिमिटेड राणा वीर प्रताप सिंह प्रबंध निदेशक डीआईएनः 00076808

**J**HŞ

स्थान : चंडीगढ़

दिनांकः 14.11.2024

## जेएचएस स्वेंदगार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : त्रिलोकपुर मार्ग, खेडी (कला-एंब), तहसील-नाहन, जनपद-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173030, भारत सीआईएन- L74110HP2004PLC027558

विवरण	30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही	30 जून 2024 को समाप्त तिमाही	30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही	30 सितंबर 2024 को समाप्त अर्द्धवर्ष	30 सितंबर 2023 को समाप्त अर्द्धवर्ष	(रु. लाख 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षि
परिचालनों से कुल आय	2054.16	2480.39	1912.55	4534.55	3543.54	7,511.2
अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक मद एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(207.31)	19.90	(99.38)	(187.41)	(415.77)	(342.8
अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर पूर्व आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(207.31)	19.90	(99.38)	(187.41)	(415.77)	(342.8
अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(1,031.93)	(62.91)	(72.98)	(1,094.84)	(331.83)	(405.7
अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(1,030.76)	(61.75)	(68.01)	(1,092.51)	(318.18)	(401.1
समता अंश पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	8,560.40	7,839.68	7,839.68	8,560.40	7,839.68	7,839.
आय प्रति समता अंश (रु. 10/- प्रत्येक का)						
(अ) मूलभूत (रु.)	(1.24)	(0.08)	(0.09)	(1.36)	(0.42)	(0.5
(ब) तरलीकृत (रु.)	(1.24)	(0.08)	(0.09)	(1.36)	(0.42)	(0.5

विवरण	30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही	024 को		30 सितंबर 2024 को समाप्त अर्द्धवर्ष	30 सितंबर 2023 को समाप्त अर्द्धवर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष			
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित			
परिचालनों से कुल आय	2054.16	2480.39	1912.55	4534.55	3543.54	7,511.26			
अविध हेतु निवल लाभ / (हानि) (असाधारण गतिविधियों के उपरांत किंतु कर पूर्व)	(207.19)	20.01	(99.33)	(187.18)	(415.61)	(342.15)			
अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (असाधारण गतिविधियों									
एवं कर के उपरांत)	(1,031.81)	(62.80)	(72.93)	(1,094.61)	(331.67)	(405.06)			
अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(1,030.64)	(61.64)	(67.96)	(1,092.28)	(318.02)	(400.41)			
प् <b>णिप्याँ :</b> उपरोक्त सार्रोश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध, लेखापरीक्षण समिति									

जरापनी स्तिर एवं बोर्ड द्वारा 13 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी बैठक में अनुसीदित अनुसार, दिनांक 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं अद्धंवर्ष के वित्तीर परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारोंश हैं तथा 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, बीएसई की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा एनएसई की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर और कंपनी की वेबसाइट (www.svendgaard.com) पर

हेतु तथा उसकी ओर बीआईएन : ०००५१५

### आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

**कॉर्पोरेट कार्यालय** : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, 🔐 अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400069

**हिसार शाखा :** दुकान नंबर – 86, द्वितीय तल, कॉमर्शियल अर्बन एस्टेट-।।, दिल्ली रोड, हिसार-125001 (हरियाणा)

**करनाल शाखा :** एससीओ 334, प्रथम तल, मुगल कनाल, करनाल–132001, (हरियाणा)

**पटियाला शाखा :** बी–17/423, द्वितीय तल, सेठी कॉम्प्लेक्स, पोलो ग्राउंड के सामने, मोदी कालेज चौक, लोअर मॉल, पटियाला–147001 (पंजाब)

### मांग सूचना

#### सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ सपिठत सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

सिक्यरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेटेस एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यरिटी इंटेस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानन) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता आधार हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंटेस्ट (इंफोर्समेंट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्णभूगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुन: उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुन: सुचित किया जाता है कि इस सुचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं / या पुनप्राप्ति तक लागू मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ऑ) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो / लिखित में यदि कोई हो , के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें । जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

\	(1910 4) OSCIO (1910 ACO (1910) XIII LADII CADII CADII CADII CADI						
娕.	उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ता / जमानतदार के नाम	मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि	प्रतिभूतित आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति/यां)				
1	(ऋण कोड सं. 09500000100 / हिसार शाखा) मनोज कुमार (कर्जदार) राज बाला (सह-कर्जदार) राम स्वरूप (गारंटर)	09-11-2024 ₹ 8,06,841/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति खसरा नंबंर 106 6 7 8 कुंजा कालोनी, ग्राम आर्य नगर, तहसील जिला हिसार, हरियाणा—125001				
2	(ऋण कोड सं. 09500000156 / हिसार शाखा) नीलम देवी (कर्जदार) कपिल (सह–कर्जदार)	09-11-2024 ₹ 7,01,098/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति वार्ड नंबर 1, खसरा नंबर 63 3 5 1 वार्ड नंबर 1, खसरा नंबर 63 3 5 13 829 मिन 1337 खेवट खाता निकट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, जींद, हरियाणा—126116				
3	(ऋण कोड सं. 3070000032 / करनाल शाखा) राजीव सिंह (कर्जदार) सपना (सह-कर्जदार) दीपक कुमार (गारंटर)	09-11-2024 ₹ 10,93,977/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति किला नंबर 297 20 7 12 सुंदर पट्टी भुन्टो वाला मोहल्ला निकट गोंडर कनाल गूगामारी आंगनवाड़ी ग्राम गोंडर तहसील निरिसंग, करनाल, हरियाणा—132024				
4	(ऋण कोड सं. 1020000047/पटियाला शाखा) स्व. महावीर सिंह (कानूनी वारिस द्वारा प्रतिनिधित्व) (कर्जदार) किरण बाला (सह–कर्जदार) जसबीर सिंह एवं गोरधन दास (गारंटर)	09-11-2024 ₹ 5,45,776/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति मकान नंबर 24 13 मकान नंबर 24 13 गली नंबर 05, वार्ड नंबर 21, अमरगढ़ कालोनी, कैथल, कुरुक्षेत्र, हरियाणा–132027				

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानन की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मुल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंधन या उल्लंधन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड

दिये जाने के योग्य होगा। सही/- प्राधिकृत अधिकारी स्थान : हरियाणा

वास्ते - आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

# दि यमुना सिंडीकेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः रादौर रोड, यमुनानगर—135001 (हरियाणा) सीआईएनः L24101HR1954PLC001837 फोन नं: +91-1732-255479, ईमेलः cfo@yamunasyndicate.com, वेबसाइटः www.yamunasyndicate.com

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए एकल और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

	(रं. लाखा म प्रात शयर अजन छाड़कर)							
		एकल			समेकित			
क्र. सं.	विवरण	30.09.2024 को समाप्त तिमाही	30.09.2024 को समाप्त छमाही	30.09.2023 को समाप्त तिमाही	30.09.2024 को समाप्त तिमाही	30.09.2024 को समाप्त छमाही	30.09.2023 को समाप्त तिमाही	
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	
I	प्रचालनों से कुल आय	1,519.82	3,454.18	1,385.63	1,519.82	3,454.18	1,385.63	
II	अविध के लिए लाम / (हानि) (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों से पूर्व)	1,415.38	1,511.34	1,054.29	4,257.64	7,298.85	2,752.19	
III	कर पूर्व अवधि के लिए लाम/(हानि) (और विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	1,415.38	1,511.34	1,054.29	4,257.64	7,298.85	2,752.19	
IV	कर पश्चात अवधि के लिए लाम/(हानि) (और विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	1,392.04	1,463.54	1,038.80	4,234.30	7,251.05	2,736.70	
V	अवधि के लिए कुल सकल आय (अवधि के लिए लाम (कर पश्चात) और समग्र आय (कर पश्चात) शामिल)	1,392.43	1,464.32	1,038.44	4,121.74	7,162.73	2,909.32	
VI	इक्विटी शेयर पूंजी	307.37	307.37	307.37	307.37	307.37	307.37	
VII	पुनर्मूत्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित, पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार	8,806.69			1,18,264.05			
VIII	प्रति शेयर अर्जन (रु. 100/– प्रत्येक के) (वार्षिकीकृत नहीं)							
	(क) बेसिक (रु. में)	452.89	476.15	337.96	1,377.59	2,359.06	890.36	
	(ख) डायल्यूटेड (रु. में)	452.89	476.15	337.96	1,377.59	2,359.06	890.36	

नोट: 1. कंपनी के उपर्युक्त वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षित हैं और निदेशक मंडल द्वारा 14 नवंबर, 2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किए गए हैं 2. कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, इसके के बाद यथासंशोधित, के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के अनुपालन में तैयार

3. समेकित परिणामों में कंपनी और इसकी एसोशिएट कंपनी अर्थात आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड के परिणाम शामिल हैं। एसोशिएट कंपनी में निवेश लेखांकन की इक्विटी विधि

4. उपर्यक्त सेबी (सचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार हैं। इन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ

स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.yamunasyndicate.com) पर उपलब्ध है। दि यमुना सिंडीकेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर रे

हस्ता./- (किशोर चटनानी) डीआईएनः 07805465

दिनांकः 14.11.2024 स्थानः नोएडा (उ.प्र.)